

जब तक आपको यह परीक्षण पुस्तिका खोलने को न कहा जाए तब तक न खोलें
परीक्षण पुस्तिका अनुक्रम

टी.बी.सी. : ASGT-B-GNL

क्रम संख्या

0270172

परीक्षण पुस्तिका गणित

D

पूर्णांक : 300

समय : दो घण्टे और तीस मिनट

अनुदेश

- परीक्षा प्रारम्भ होने के तुरन्त बाद, आप इस परीक्षण पुस्तिका की पड़ताल अवश्य कर लें कि इसमें कोई बिना छपा, फटा या छूटा हुआ पृष्ठ अथवा प्रश्नांश आदि न हो। यदि ऐसा है, तो इसे सही परीक्षण पुस्तिका से बदल लें।
- कृपया ध्यान रखें कि OMR उत्तर-पत्रक में उचित स्थान पर, रोल नम्बर और परीक्षण पुस्तिका अनुक्रम A, B, C या D को ध्यान से एवं बिना किसी चूक या विसंगति के भरने और कूटबद्ध करने की जिम्मेदारी उम्मीदवार की है। किसी भी प्रकार की चूक/विसंगति की स्थिति में उत्तर-पत्रक निरस्त कर दिया जाएगा।
- इस परीक्षण पुस्तिका पर साथ में दिए गए कोष्ठक में आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है। परीक्षण पुस्तिका पर और कुछ न लिखें।
- इस परीक्षण पुस्तिका में 120 प्रश्नांश (प्रश्न) दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्नांश हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छपा है। प्रत्येक प्रश्नांश में चार प्रत्युत्तर (उत्तर) दिए गए हैं। इनमें से एक प्रत्युत्तर को चुन लें, जिसे आप उत्तर-पत्रक पर अंकित करना चाहते हैं। यदि आपको ऐसा लगे कि एक से अधिक प्रत्युत्तर सही हैं, तो उस प्रत्युत्तर को अंकित करें जो आपको सर्वोत्तम लगे। प्रत्येक प्रश्नांश के लिए केवल एक ही प्रत्युत्तर चुनना है।
- आपको अपने सभी प्रत्युत्तर अलग से दिए गए उत्तर-पत्रक पर ही अंकित करने हैं। उत्तर-पत्रक में दिए गए निर्देश देखें।
- सभी प्रश्नांशों के अंक समान हैं।
- इससे पहले कि आप परीक्षण पुस्तिका के विभिन्न प्रश्नांशों के प्रत्युत्तर उत्तर-पत्रक पर अंकित करना शुरू करें, आपको प्रवेश प्रमाण-पत्र के साथ प्रेषित अनुदेशों के अनुसार कुछ विवरण उत्तर-पत्रक में देने हैं।
- आप अपने सभी प्रत्युत्तरों को उत्तर-पत्रक में भरने के बाद तथा परीक्षा के समाप्ति पर केवल उत्तर-पत्रक अधीक्षक को सौंप दें। आपको अपने साथ परीक्षण पुस्तिका ले जाने की अनुमति है।
- कच्चे काम के लिए पत्रक, परीक्षण पुस्तिका के अंत में संलग्न हैं।
- गलत उत्तरों के लिए दण्ड :**
बस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दण्ड दिया जाएगा।

- प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का एक-तिहाई दण्ड के रूप में काटा जाएगा।
- यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जाएगा।
- यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं दिया जाएगा।

जब तक आपको यह परीक्षण पुस्तिका खोलने को न कहा जाए तब तक न खोलें

Note : English version of the instructions is printed on the back cover of this Booklet.

1. कितनी वास्तविक संख्याएं समीकरण $|x-4|+|x-7|=15$ को सुलझा करती हैं ?

- (c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

- (a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) केवल तीन
(d) अनगिनत

2. एक फलन $f:A \rightarrow B$ इस प्रकार परिभाषित

है कि $f(x) = \frac{2x+3}{3x+5}$, $x \in A$ है। यदि

f आच्छादक है, तो A और B किसके बाबत हैं ?

- (a) 6
(b) 8
(c) 9
(d) 10

(a) $A = R \setminus \{-\frac{5}{3}\}$ और $B = R \setminus \{-\frac{2}{3}\}$

(b) $A = R$ और $B = R \setminus \{-\frac{5}{3}\}$

- (a) 9
(b) 12
(c) 15
(d) 17

(c) $A = R \setminus \{-\frac{3}{2}\}$ और $B = R \setminus \{0\}$

- (a) 9
(b) 12
(c) 15
(d) 17

(d) $A = R \setminus \{-\frac{5}{3}\}$ और $B = R \setminus \{\frac{2}{3}\}$

- (a) 9
(b) 12
(c) 15
(d) 17

3. α और β द्विघातीय समीकरण $x^2 + ax + b = 0$ के मिन्न वास्तविक मूल हैं। α निश्चित करते के लिए जिम्मेदारियां में से कौन-सा/से कथन पर्याप्त है/हैं ?

1. $\alpha + \beta = 0$, $\alpha^2 + \beta^2 = 2$
2. $a\beta^2 = -1$, $a = 0$

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 4
(d) 3

1. How many real numbers satisfy the equation $|x-4|+|x-7|=15$?

- (a) Only one
(b) Only two
(c) Only three
(d) Infinitely many

4. यदि $\left(x^{-\frac{8}{3}} + x^2 \log_{10} x \right)^8$ के द्वितीय प्रसरण में छठवां पद 5600 है, तो x का मान क्या है ?

- (a) 6
(b) 8
(c) 9
(d) 10

5. $(3x-y)^4(x+3y)^4$ के प्रसरण में कितने पद हैं ?

- (b) $A = R$ and $B = R \setminus \{-\frac{5}{3}\}$
(c) $A = R \setminus \{-\frac{3}{2}\}$ and $B = R \setminus \{0\}$
(d) $A = R \setminus \{-\frac{5}{3}\}$ and $B = R \setminus \{\frac{2}{3}\}$

- (a) $A = R \setminus \{-\frac{5}{3}\}$ and $B = R \setminus \{-\frac{2}{3}\}$

2. A mapping $f: A \rightarrow B$ defined as $f(x) = \frac{2x+3}{3x+5}$, $x \in A$. If f is to be onto, then what are A and B equal to ?

- (a) 6
(b) 8
(c) 9
(d) 10

5. How many terms are there in the expansion of $(3x-y)^4(x+3y)^4$?

3. α and β are distinct real roots of the quadratic equation $x^2 + ax + b = 0$. Which of the following statements is/are sufficient to find α ?
1. $\alpha + \beta = 0$, $\alpha^2 + \beta^2 = 2$
2. $a\beta^2 = -1$, $a = 0$

4. If the sixth term in the binomial expansion of $\left(x^{-\frac{8}{3}} + x^2 \log_{10} x \right)^8$ is 5600, then what is the value of x ?

- (a) 6
(b) 5
(c) 4
(d) 3
- (c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
- (c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
- (c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
- (c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
- (c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
- D – ASGT-B-GNL

7. नियत धनरूप संख्या n के लिए निम्नलिखित कीजिए :

 - $C(n, r)$ महसूल है यदि $n = 2r$ है
 - $C(n, r)$ महसूल है यदि $n = 2r - 1$ और $r = 2r + 1$ है
 - उपर्युक्त कथनों में कौन-सा / से सही है / हैं :
 - केवल 1
 - केवल 2
 - 1 और 2 दोनों
 - न तो 1, न ही 2 - समांतर श्रेणीं, n रेखाओं को काटती हैं और इससे 60 समांतर चतुर्भुज बनते हैं $(m + n)$ का मान क्या है ?
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9

1. $C(n, r)$ मरतम है यदि $n = 2r - \frac{1}{2}$
 2. $C(n, r)$ मरतम है यदि $n = 2r - 1$ और
 $n = 2r + 1$ है

- | |
|--|
| 10. अंक 0, 1, 2, 4, 5 से, उन्नरवृत्ति किए जाने हें। 50,000 से बड़ी संख्याओं की प्रतिशतता जितनी है? |
| (a) 20%
(b) 25%
(c) $\frac{100}{3}\%$
(d) $\frac{110}{3}\%$ |
| प्र. विचार कीजिए: |
| $f(x) = x-2 + 3-x + 4-x $, जहाँ $x \in R$ है, पर विचार कीजिए: |
| 11. x के किस मान पर फलन न्यूतम मान प्राप्त करता है? |
| (a) 2
(b) 3
(c) 4
(d) 0 |
| 12. फलन का न्यूतम मान क्या है? |
| (a) 2
(b) 3
(c) 4
(d) 0 |
| फलन $f(x) = x-2 + 3-x + 4-x $, जहाँ $x \in R$ है, पर विचार कीजिए: |
| 11. x के किस मान पर फलन न्यूतम मान प्राप्त करता है? |
| (a) 2
(b) 3
(c) 4
(d) 0 |
| 12. फलन का न्यूतम मान क्या है? |
| (a) 2
(b) 3
(c) 4
(d) 0 |
| 9. Let x be the number of permutations of the word 'PERMUTATIONS' and y be the number of permutations of the word 'COMBINATIONS'. Which one of the following is correct? |
| (a) $x = y$
(b) $y = 2x$
(c) $x = 4y$
(d) $y = 4x$ |
| 10. 5-digit numbers are formed using the digits 0, 1, 2, 4, 5 without repetition. What is the percentage of numbers which are greater than 50,000? |
| 7. Consider the following statements for a fixed natural number n : |
| 1. $C(n, r)$ is greatest if $n = 2r$ |
| 2. $C(n, r)$ is greatest if $n = 2r - 1$ and $n = 2r + 1$ |
| (a) 20%
(b) 25%
(c) $\frac{100}{3}\%$
(d) $\frac{110}{3}\%$ |
| Which of the statements given above is/are correct? |
| (a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2 |
| 8. m parallel lines cut n parallel lines giving rise to 60 parallelograms. What is the value of $(m+n)$? |
| (a) 6
(b) 7
(c) 8
(d) 9 |
| 9. Let x be the number of permutations of the word 'PERMUTATIONS' and y be the number of permutations of the word 'COMBINATIONS'. Which one of the following is correct? |
| (a) $x = y$
(b) $y = 2x$
(c) $x = 4y$
(d) $y = 4x$ |
| 10. 5-digit numbers are formed using the digits 0, 1, 2, 4, 5 without repetition. What is the percentage of numbers which are greater than 50,000? |
| (a) 20%
(b) 25%
(c) $\frac{100}{3}\%$
(d) $\frac{110}{3}\%$ |
| 11. At what value of x does the function $f(x) = x-2 + 3-x + 4-x $, where $x \in R$. |
| (a) 2
(b) 3
(c) 4
(d) 0 |
| 12. What is the minimum value of the function? |
| (a) 2
(b) 3
(c) 4
(d) 0 |

अगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित

पर विचार कीजिए :

$$\text{योग } S = 0! + 1! + 2! + 3! + 4! + \dots + 100!$$

पर विचार कीजिए :

13. यदि योग 5 को 8 से भिन्नभिन्न किया जाए,

तो शेषफल क्या होगा ?

$$(a) 0$$

$$(b) 1$$

$$(c) 2$$

$$(d) 18$$

14. यदि योग 5 को 60 से विभाजित किया जाए,

तो शेषफल क्या होगा ?

$$(a) 1$$

$$(b) 3$$

$$(c) 17$$

$$(d) 34$$

अगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित

पर विचार कीजिए :

$$\sin x + \cos x + \tan x + \cot x + \sec x + \cosec x = 7$$

$$(a) \sin^2 2x - 44 \sin 2x + 36 = 0$$

$$(b) \sin^2 2x + 44 \sin 2x - 36 = 0$$

$$(c) \sin^2 2x - 22 \sin 2x + 18 = 0$$

$$(d) \sin^2 2x + 22 \sin 2x - 18 = 0$$

15. यदि $\sin 2x = a - b\sqrt{c}$ है, जहां a और b धनरूप संख्याएँ हैं और c एक अभाज्य संख्या है तो $a - b + 2c$ का मान क्या है ?

15. n का मान क्या है ?

$$(a) 4$$

$$(b) 6$$

$$(c) 8$$

$$(d) 10$$

16. सबसे छोटी युआ की लंबाई कितनी है ?

$$(a) 12$$

$$(b) 14$$

$$(c) 16$$

$$(d) 18$$

Consider the following for the next two (02) items that follow :

Consider the sum

$$S = 0! + 1! + 2! + 3! + 4! + \dots + 100!$$

13. If the sum S is divided by 8, what is the remainder ?

$$(a) 0$$

$$(b) 14$$

$$(c) 16$$

$$(d) 18$$

Given that

Consider the following for the next two (02) items that follow :

Given that

14. If the sum S is divided by 60, what is the remainder ?

$$(a) 1$$

$$(b) 3$$

$$(c) 2$$

$$(d) Cannot be determined$$

$$(a) \sin^2 2x - 44 \sin 2x + 36 = 0$$

$$(b) \sin^2 2x + 44 \sin 2x - 36 = 0$$

$$(c) \sin^2 2x - 22 \sin 2x + 18 = 0$$

$$(d) \sin^2 2x + 22 \sin 2x - 18 = 0$$

Consider the following for the next two (02) items that follow :

In a triangle PQR , P is the largest angle and $\cos P = \frac{1}{3}$. Further the in-circle of the triangle touches the sides PQ , QR and RP at N , L and M respectively such that the lengths PN , QL and RM are n , $n+2$, $n+4$ respectively where n is an integer.

18. If $\sin 2x = a - b\sqrt{c}$, where a and b are natural numbers and c is prime number, then what is the value of $a - b + 2c$?

15. What is the value of n ?

$$(a) 0$$

$$(b) 4$$

$$(c) 6$$

$$(d) 8$$

$$(e) 21$$

$$(f) 10$$

आगे आजे चाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

एक द्विघातीय समीकरण इसप्रकार दिया गया है
 $(3+2\sqrt{2})x^2 - (4+2\sqrt{3})x + (8+4\sqrt{3}) = 0$

19. समीकरण के मूलों का HM क्या है ?

- (a) 2
- (b) 4
- (c) $2\sqrt{2}$
- (d) $2\sqrt{3}$

20. समीकरण के मूलों का GM क्या है ?

- (a) $\sqrt{2}(\sqrt{6}-\sqrt{3}+\sqrt{2}-1)$
- (b) $\sqrt{2}(\sqrt{6}-\sqrt{3}-\sqrt{2}-1)$
- (c) $(\sqrt{6}-\sqrt{3}+\sqrt{2}-1)$
- (d) $(\sqrt{6}+\sqrt{3}+\sqrt{2}-1)$

दो रेखाओं पर विचार कीजिए जिनके दिक् अनुपात $(2, -1, 2)$ और $(k, 3, 5)$ हैं। ये रेखाएं कोण $\frac{\pi}{4}$ पर अन्त हैं।

23. k का मान क्या है ?

- (a) 4
- (b) 2
- (c) 1
- (d) -1

आगे आगे चाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए $A(1, -1, 2)$ और $B(2, 1, -1)$ गोला $x^2+y^2+z^2+2ux+2vy+2wz-1=0$ के व्यास के अंत्य बिंदु हैं

21. $u+v+w$ किसके बराबर है ?

24. उस रेखा के दिक् अनुपात क्या हैं, जो दोनों रेखाओं पर लंब है ?

21. What is $u+v+w$ equal to ?

- (a) -2
- (b) -1
- (c) 1
- (d) 2

22. यदि $P(x, y, z)$ गोले पर कोई बिंदु है तो $PA^2 + PB^2$ किसके बराबर है ?

- (a) 15
- (b) 14
- (c) 13
- (d) 6.5

Consider the following for the next two (02) items that follow :

A quadratic equation is given by
 $(3+2\sqrt{2})x^2 - (4+2\sqrt{3})x + (8+4\sqrt{3}) = 0$

19. What is the HM of the roots of the equation ?

- (a) 2
- (b) 4
- (c) 13
- (d) 6.5

आगे आगे चाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

- (c) $2\sqrt{2}$
- (d) $2\sqrt{3}$

20. What is the GM of the roots of the equation ?

- (a) $\sqrt{2}(\sqrt{6}-\sqrt{3}+\sqrt{2}-1)$
- (b) $\sqrt{2}(\sqrt{6}+\sqrt{3}-\sqrt{2}-1)$
- (c) $(\sqrt{6}-\sqrt{3}+\sqrt{2}-1)$
- (d) $(\sqrt{6}+\sqrt{3}+\sqrt{2}-1)$

23. What is the value of k ?

- (a) 4
- (b) 2
- (c) 1
- (d) -1

Consider the following for the next two (02) items that follow :

Let $A(1, -1, 2)$ and $B(2, 1, -1)$ be the end points of the diameter of the sphere $x^2+y^2+z^2+2ux+2vy+2wz-1=0$.

Consider two lines whose direction ratios are $(2, -1, 2)$ and $(k, 3, 5)$. They are inclined at an angle $\frac{\pi}{4}$.

Consider the following for the next two (02) items that follow :

Consider two lines whose direction ratios are $(2, -1, 2)$ and $(k, 3, 5)$. They are inclined at an angle $\frac{\pi}{4}$.

22. If $P(x, y, z)$ is any point on the sphere, then what is $PA^2 + PB^2$ equal to ?

- (a) 15
- (b) 14
- (c) 13
- (d) 6.5

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए $\vec{a} = 3\hat{i} + 3\hat{j} + 3\hat{k}$ और $\vec{c} = \hat{j} - \hat{k}$

है। मान लीजिए \vec{b} इस प्रकार है कि $\vec{a} \cdot \vec{b} = 27$ और $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{9c}$ है।

25. \vec{b} किसके बराबर है ?

- (a) $\frac{5}{9}$
(d) $\frac{2}{3}$

28. $\cos 2\beta + \cos 2\gamma$ किसके बराबर है ?

- (a) $-\frac{32}{81}$
(d) $-\frac{16}{81}$

26. $(\vec{a} + \vec{b})$ और \vec{c} के बीच का कोण क्या है ?

- (a) $\frac{16}{81}$
(d) $\frac{32}{81}$

(a)

(b)

(c)

(d)

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

दो बिंदुओं A और B के स्थिति सदिश प्रश्न: $\hat{i} - \hat{j}$ और $\hat{j} + \hat{k}$ हैं।

(a)

(b)

(c)

(d)

27. $\cos \alpha$ किसके बराबर है ?

- (a) $\frac{1}{3}$
(b) $\frac{4}{9}$

Consider the following for the next two (02) items that follow :

Let $\vec{a} = 3\hat{i} + 3\hat{j} + 3\hat{k}$ and $\vec{c} = \hat{j} - \hat{k}$. Let \vec{b} be such that $\vec{a} \cdot \vec{b} = 27$ and $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{9c}$

25. What is \vec{b} equal to ?

- (a) $3\hat{i} + 4\hat{j} + 2\hat{k}$
(b) $5\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$
(c) $5\hat{i} - 2\hat{j} + 6\hat{k}$
(d) $3\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}$

28. What is $\cos 2\beta + \cos 2\gamma$ equal to ?

- (c) $\frac{5}{9}$
(d) $\frac{2}{3}$

(a)

(b)

(c)

(d)

27. $\cos \alpha$ किसके बराबर है ?

- (a) $\frac{1}{3}$
(b) $\frac{4}{9}$

Consider the following for the next two (02) items that follow :

The position vectors of two points A and B are $\hat{i} - \hat{j}$ and $\hat{j} + \hat{k}$ respectively.

29. Consider the following points :

Consider the following for the next two (02) items that follow :

Which of the above points lie on the line joining A and B ?

27. What is $\cos \alpha$ equal to ?

- (a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3

30. \overrightarrow{AB} का परिमाण क्या है ?

(a) 2

(b) 3

(c) $\sqrt{6}$

(d) $\sqrt{3}$

31. यदि a , 1 का एक अवातारिक घनमूल है, तो

$$\left| \frac{1-\omega}{\omega+\omega^2} \right| \text{ का मान क्या है ?}$$

(a) $\sqrt{3}$

(b) $\sqrt{2}$

(c) 1

(d) $\frac{4}{\sqrt{3}}$

(d) 24

34. मान जीएट.ए एक 3×3 कोटि का आव्यूह है और $|A|=4$ है। यदि $|2 \operatorname{adj}(3A)| = 2^{\alpha} \beta$ है, तो $(\alpha + \beta)$ का मान क्या है ?

(a) 12

(b) 13

(c) 17

(d) $\sqrt{3}$

30. What is the magnitude of \overrightarrow{AB} ?

(a) 2

(b) 3

(c) $\sqrt{6}$

(d) $\sqrt{3}$

34. Let A be a matrix of order 3×3 and $|A|=4$. If $|2 \operatorname{adj}(3A)| = 2^{\alpha} \beta$, then what is the value of $(\alpha + \beta)$?

(a) 12

(b) 13

(c) 17

(d) Neither 1 nor 2

35. यदि α और β समीकरण $x^2 - x + 1 = 0$ के मिश्र मूल हैं, तो $\left| \frac{\alpha^{100} + \beta^{100}}{\alpha^{100} - \beta^{100}} \right|$ का मान क्या है ?

$$\text{मिश्र मूल हैं, तो } \left| \frac{\alpha^{100} + \beta^{100}}{\alpha^{100} - \beta^{100}} \right| \text{ का मान क्या है ?}$$

(a) $\sqrt{3}$

(b) $\sqrt{2}$

(c) 1

(d) $\frac{4}{\sqrt{3}}$

31. If ω is a non-real cube root of 1, then what is the value of $\left| \frac{1-\omega}{\omega+\omega^2} \right|$?

$$\left| \frac{1-\omega}{\omega+\omega^2} \right|$$

(a) $\sqrt{3}$

(b) $\sqrt{2}$

(c) 1

(d) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

30. यदि a , 1 का एक अवातारिक घनमूल है, तो

32. केवल 0, 1, 2, 3, 4 और 5 का (प्रत्येक का एक बार) उपयोग करके 6 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 6 से भाज्य हों ?

36. मान जीएट.ए और B समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, तो $(AB - BA)$ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है ?

(a) 96

(b) 120

(c) 192

(d) 312

32. What is the number of 6-digit numbers that can be formed only by using 0, 1, 2, 3, 4 and 5 (each once); and divisible by 6 ?

(d) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

33. दशमलव संख्या 1011 के तुल्य द्वि-आधारी संख्या क्या है ?

नीचे दिए गए रूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए :

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

33. What is the binary number equivalent to decimal number 1011 ?

प्रतियों का योगफल शून्य है

नीचे दिए गए रूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए :

(a) 1011

(b) 111011

(c) 1111001

(d) 11110011

36. Let A and B be symmetric matrices of same order, then which one of the following is correct regarding $(AB - BA)$?

1. Its diagonal entries are equal but nonzero

2. Its non-diagonal entries are equal but nonzero

3. The sum of its non-diagonal entries is zero

33. दशमलव संख्या 1011 के तुल्य द्वि-आधारी संख्या क्या है ?

नीचे दिए गए रूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए :

(a) 1011

(b) 111011

(c) 1111001

(d) 11110011

प्रतियों का योगफल शून्य है

नीचे दिए गए रूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए :

(a) 1011

(b) 111011

(c) 1111001

(d) 11110011

प्रतियों का योगफल शून्य है

नीचे दिए गए रूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए :

(a) 1011

(b) 111011

(c) 1111001

(d) 11110011

प्रतियों का योगफल शून्य है

नीचे दिए गए रूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए :

(a) 1011

(b) 111011

(c) 1111001

(d) 11110011

प्रतियों का योगफल शून्य है

नीचे दिए गए रूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए :

(a) 1011

(b) 111011

(c) 1111001

(d) 11110011

प्रतियों का योगफल शून्य है

नीचे दिए गए रूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए :

(a) 1011

(b) 111011

(c) 1111001

(d) 11110011

प्रतियों का योगफल शून्य है

नीचे दिए गए रूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए :

(a) 1011

(b) 111011

(c) 1111001

(d) 11110011

प्रतियों का योगफल शून्य है

नीचे दिए गए रूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए :

(a) 1011

(b) 111011

(c) 1111001

(d) 11110011

प्रतियों का योगफल शून्य है

नीचे दिए गए रूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए :

(a) 1011

(b) 111011

(c) 1111001

(d) 11110011

प्रतियों का योगफल शून्य है

नीचे दिए गए रूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए :

(a) 1011

(b) 111011

(c) 1111001

(d) 11110011

प्रतियों का योगफल शून्य है

नीचे दिए गए रूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए :

(a) 1011

(b) 111011

(c) 1111001

(d) 11110011

प्रतियों का योगफल शून्य है

नीचे दिए गए रूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए :

(a) 1011

(b) 111011

(c) 1111001

(d) 11110011

प्रतियों का योगफल शून्य है

नीचे दिए गए रूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए :

(a) 1011

(b) 111011

(c) 1111001

(d) 11110011

प्रतियों का योगफल शून्य है

नीचे दिए गए रूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए :

(a) 1011

(b) 111011

(c) 1111001

(d) 11110011

प्रतियों का योगफल शून्य है

नीचे दिए गए रूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए :

(a) 1011

(b) 111011

(c) 1111001

(d) 11110011

प्रतियों का योगफल शून्य है

नीचे दिए गए रूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए :

(a) 1011

(b) 111011

(c) 1111001

(d) 11110011

प्रतियों का योगफल शून्य है

नीचे दिए गए रूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए :

(a) 1011

(b) 111011

(c) 1111001

(d) 11110011

प्रतियों का योगफल शून्य है

नीचे दिए गए रूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए :

(a) 1011

(b) 111011

(c) 1111001

(d) 11110011

प्रतियों का योगफल शून्य है

नीचे दिए गए रूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए :

(a) 1011

(b) 111011

(c) 1111001

(d) 11110011

प्रतियों का योगफल शून्य है

नीचे दिए गए रूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए :

(a) 1011

(b) 111011

(c) 1111001

(d) 11110011

प्रतियों का योगफल शून्य है

नीचे दिए गए रूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए :

(a) 1011

(b) 111011

(c) 1111001

(d) 11110011

प्रतियों का योगफल शून्य है

नीचे दिए गए रूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए :

(a) 1011

(b) 111011

(c) 1111001

(d) 11110011

प्रतियों का योगफल शून्य है

नीचे दिए गए रूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए :

(a) 1011

(b) 111011

(c) 1111001

(d) 11110011

प्रतियों का योगफल शून्य है

नीचे दिए गए रूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए :

(a) 1011

(b) 111011

(c) 1111001

(d) 11110011

प्रतियों का योगफल शून्य है

नीचे दिए गए रूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए :

(a) 1011

(b) 111011

(c) 1111001

(d) 11110011

प्रतियों का योगफल शून्य है

नीचे दिए गए रूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए :

(a) 1011

(b) 111011

(c) 1111001

(d) 11110011

प्रतियों का योगफल शून्य है

नीचे दिए गए रूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए :

(a) 1011

(b) 111011

(c) 1111001

(d) 11110011

प्रतियों का योगफल शून्य है

नीचे दिए गए रूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए :

(a) 1011

(b) 111011

(c) 1111001

37. समान कोटि n के प्रत्येक वर्ग आवृह A, B, C के संर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. $AB = AC \Rightarrow B = C$, यदि A व्युक्तमणीय है
2. यदि " n पंक्तियों वाले सभी आवृह X के लिए $BX = CX$ है, तो $B = C$

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा / से सही है/हैं ?

- (a) केवल 1
 - (b) केवल 2
 - (c) 1 और 2 दोनों
 - (d) न तो 1, न ही 2
38. रैखिक समीकरण निकाय $x + 2y + z = 4$, $2x + 4y + 2z = 8$ और $3x + 6y + 3z = 10$ का/के
- (a) अद्वितीय हल है
 - (b) अनगिनत हल है
 - (c) कोई हल नहीं है
 - (d) सटीक तीन हल हैं
39. मान लेनिए $AX = B$, 3 जगतों के साथ 3 रैखिक समीकरणों का एक निकाय है। मान लीजिए X_1 और X_2 इसके दो निम्न हल हैं। यदि $aX_1 + bX_2$ का संयोगन, $AX = B$ का एक हल है, जहां a और b वास्तविक संख्याएँ हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है ?
- (a) $a = b$
 - (b) $a + b = 1$
 - (c) $a + b = 0$
 - (d) $a - b = 1$

$$40. \text{समीकरण } \begin{vmatrix} 0 & x-a & x-b \\ 0 & 0 & x-c \\ x+b & x+c & 1 \end{vmatrix} = 0 \text{ के मूलों का योगफल क्या है ?}$$

- (a) $a + b + c$
- (b) $a - b + c$
- (c) $a + b - c$
- (d) $a - b - c$

37. Consider the following statements in respect of square matrices A, B, C each of same order n :

1. $AB = AC \Rightarrow B = C$ if A is non-singular
2. If $BX = CX$ for every column matrix X having n rows then $B = C$

Which of the statements given above is/are correct ?

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

मान लेनिए $\sin\alpha$ और $\cos\alpha$ का GM, $\sin\beta$ है; और $\sin\alpha$ और $\cos\alpha$ का AM, $\tan\gamma$ है

41. $\cos 2\beta$ किसके बराबर है ?

- (a) $(\cos\alpha - \sin\alpha)^2$
- (b) $(\cos\alpha + \sin\alpha)^2$
- (c) $(\cos\alpha - \sin\alpha)^3$
- (d) $\frac{(\cos\alpha - \sin\alpha)^2}{2}$

38. The system of linear equations $x + 2y + z = 4$, $2x + 4y + 2z = 8$ and $3x + 6y + 3z = 10$ has

- (a) a unique solution
- (b) infinite many solutions
- (c) no solution
- (d) exactly three solutions

41. What is $\cos 2\beta$ equal to ?

- (a) $(\cos\alpha - \sin\alpha)^2$
- (b) $(\cos\alpha + \sin\alpha)^2$
- (c) $(\cos\alpha - \sin\alpha)^3$
- (d) $\frac{(\cos\alpha - \sin\alpha)^2}{2}$

42. Consider the following for the next two (02) items that follow :
Let $\sin\beta$ be the GM of $\sin\alpha$ and $\cos\alpha$; $\tan\gamma$ be the AM of $\sin\alpha$ and $\cos\alpha$.

40. What is the sum of the roots of the equation $\begin{vmatrix} 0 & x-a & x-b \\ 0 & 0 & x-c \\ x+b & x+c & 1 \end{vmatrix} = 0$?

40. What is the sum of the roots of the equation $\begin{vmatrix} 0 & x-a & x-b \\ 0 & 0 & x-c \\ x+b & x+c & 1 \end{vmatrix} = 0$?

42. What is the value of $\sec 2\gamma$?

39. Let $AX = B$ be a system of 3 linear equations with 3-unknowns. Let X_1 and X_2 be its two distinct solutions. If the combination $aX_1 + bX_2$ is a solution of $AX = B$; where a, b are real numbers, then which one of the following is correct ?

- (a) $a = b$
- (b) $a + b = 1$
- (c) $a + b = 0$
- (d) $a - b = 1$

आगे आगे बाते हो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

10 m ऊंचे एक खंभे पर 20 m लंबा एक ध्वजदण्ड लगा है जो तल के लिये बिंदु P पर $\tan^{-1}(0.5)$ का कोण अंतरित करता है। मान लीजिए खंभे तेज़ इस बिंदु P पर अंतरित कोण θ है।

43. यदि खंभे के तल से P की दूरी x है, तो

- (a) $\sqrt{3}+1$
(b) $\sqrt{3}+2$
(c) $\sqrt{3}+3$
(d) $2\sqrt{3}+1$

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. x के दो मान हो सकते हैं, जो 1 : 3 के अनुपात में हैं

2. x ध्वजदण्ड की ऊंचाई के बराबर हो सकता है

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं ?

- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

44. Tan θ का समाकित मान क्या है ?

आगे आगे बाते हो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

(a) $\frac{3}{4}$
(b) $\frac{2}{3}$

$$\text{जहाँ } 0 < A \leq \frac{\pi}{2}$$

47. x का न्यूटन मान क्या है ?

- (a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) 4

आगे आगे बाते हो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

एक विशुज ABC का परिमाप, विशुज के कोणों के sine के AM का 6 गुना है। इसके अलावा $BC = \sqrt{3}$ और $CA = 1$ है।

45. विशुज का परिमाप क्या है ?

- (a) $\sqrt{3}+1$
(b) $\sqrt{3}+2$
(c) $\sqrt{3}+3$
(d) $2\sqrt{3}+1$

46. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. ABC समकोणीय विशुज है

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं ?

- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

43. If x is the distance of P from bottom of the pillar, then consider the following statements :

1. x can take two values which are in the ratio 1 : 3

2. x can be equal to height of the flagstaff

Which of the statements given above is/are correct ?

- (a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

46. Consider the following statements :

1. ABC is right angled triangle

2. The angles of the triangle are in AP

- Which of the statements given above is/are correct ?

- (a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

44. What is a possible value of tan θ ?

Consider the following for the next two (02) items that follow :

Let $x = \frac{\sin^2 A + \sin A + 1}{\sin A}$ where $0 < A \leq \frac{\pi}{2}$

- (a) $\frac{3}{4}$
(b) $\frac{2}{3}$

47. What is the minimum value of x ?

Consider the following for the next two (02) items that follow :

The perimeter of a triangle ABC is 6 times the AM of sine of angles of the triangle. Further $BC = \sqrt{3}$ and $CA = 1$.

45. What is the perimeter of the triangle ?

- (a) $\sqrt{3}+1$
(b) $\sqrt{3}+2$
(c) $\sqrt{3}+3$
(d) $2\sqrt{3}+1$

A flagstaff 20 m long standing on a pillar 10 m high subtends an angle $\tan^{-1}(0.5)$ at a point P on the ground. Let θ be the angle subtended by the pillar at this point P .

48. A के किस मान पर, x का मान चून्तम है?

(a) $\frac{\pi}{6}$

(b) $\frac{\pi}{4}$

(c) $\frac{\pi}{3}$

(d) $\frac{\pi}{2}$

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

निम्न ABC में, $a^2+b^2+c^2=ac+\sqrt{3}bc$

49. निम्न का स्वरूप कैसा है?

(a) समबाहु

(b) समद्विबाहु

(c) समकोणीय निम्न

(d) विषमबाहु लेकिन समकोणीय नहीं

50. यदि $c=8$ है, तो निम्न का क्षेत्रफल क्या है?

(a) 1

(b) 4

(c) 9

(d) 16

51. निम्नलिखित बारंगता बंटन पर विचार कीजिए:

x	1	2	3	5
f	4	6	9	7

बंटन की माध्यिका का मान क्या है?

(a) 1

(b) 2

(c) 3

(d) 3.5

52. डेटा $-1, 1, 4, 3, 8, 12, 17, 19, 9, 11$ के लिए, यदि M पहले 5 प्रश्नों की माध्यिका है और N आखिरी पाँच प्रश्नों की माध्यिका है, तो $4M - N$ का मान क्या है?

(a) 7

(b) 4

(c) 1

(d) 0

53. मान लीजिए किसी बंटन $5P = 4Q = \frac{R}{2}$ के लिए P, Q, R क्रमशः: माध्य, माध्यिका और बहुलक को निरूपित करते हैं। तो $\frac{P+Q}{2P+0.7R}$ का मान क्या होगा?

49. What is the nature of the triangle?

(a) Equilateral

(b) Isosceles

(c) Right angled triangle

(d) Scalene but not right angled

48. At what value of A does x attain the minimum value?

(a) $\frac{\pi}{6}$

(b) $\frac{\pi}{4}$

(c) $\frac{\pi}{3}$

(d) $\frac{\pi}{2}$

52. For data $-1, 1, 4, 3, 8, 12, 17, 19, 9, 11$, if M is the median of first 5 observations and N is the median of last five observations, then what is the value of $4M - N$?

In the triangle ABC ,
 $a^2+b^2+c^2=ac+\sqrt{3}bc$

(a) 7

(b) 4

(c) 1

(d) 0

53. Let P, Q, R represent mean, median and mode. If for some distribution $5P = 4Q = \frac{R}{2}$, then what is $\frac{P+Q}{2P+0.7R}$ equal to?

53. Let P, Q, R represent mean, median and mode. If for some distribution $5P = 4Q = \frac{R}{2}$, then what is $\frac{P+Q}{2P+0.7R}$ equal to?

50. If $c=8$, what is the area of the triangle?

(a) $\frac{1}{12}$

(b) $\frac{1}{7}$

(c) $\frac{2}{9}$

(d) $\frac{1}{4}$

51. Consider the following frequency distribution:

x	1	2	3	5
f	4	6	9	7

What is the value of median of the distribution?

(a) 1

(b) 2

(c) 3

(d) 3.5

54. संख्याओं $1, 2, 2^2, 2^3, \dots, 2^{n-1}$, का गुणोत्तर माध्य G है, तो $1 + 2\log_2 G$ का मान क्या है?

- (a) 1
 (b) 4
 (c) $n - 1$
 (d) n

57. एक बैले में 3 सफेद और 2 काली गेंदें हैं, दूसरे बैले में 2 सफेद और 3 काली गेंदें हैं। दो गेंदों को पहले बैले से निकाल कर दूसरे बैले में रख दिया जाता है और फिर दूसरे बैले में से एक गेंद निकाली जाती है। क्या प्रायिकता है कि यह गेंद सफेद हो?

- (a) $\frac{6}{7}$
 (b) $\frac{33}{70}$
 (c) $\frac{3}{10}$
 (d) $\frac{1}{70}$

55. If H is the harmonic mean of numbers $1, 2, 2^2, 2^3, \dots, 2^{n-1}$, then what is n/H equal to?

- (a) $2 - \frac{1}{2^{n+1}}$
 (b) $2 - \frac{1}{2^{n-1}}$
 (c) $2 + \frac{1}{2^{n-1}}$
 (d) $2 - \frac{1}{2^n}$

57. One bag contains 3 white and 2 black balls, another bag contains 2 white and 3 black balls. Two balls are drawn from the first bag and put it into the second bag and then a ball is drawn from the second bag. What is the probability that it is white?

- (a) $\frac{1}{9}$
 (b) $\frac{1}{18}$
 (c) $\frac{1}{27}$
 (d) $\frac{1}{3}$

55. यदि संख्याओं $1, 2, 2^2, 2^3, \dots, 2^{n-1}$, का हरातमक माध्य H है तो n/H किसके बराबर है?

- (a) $2 - \frac{1}{2^{n+1}}$
 (b) $2 - \frac{1}{2^{n-1}}$
 (c) $2 + \frac{1}{2^{n-1}}$
 (d) $2 - \frac{1}{2^n}$

56. मान नीलिए प्रेषणों $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ की मात्रिका P , माध्य Q और बहुलक R है। मान नीलिए $S = \sum_{i=1}^n (2x_i - a)^2$ है, S का मान न्यूनतम होगा जब a बराबर है

- (a) 1
 (b) $\frac{Q}{2}$
 (c) $2Q$
 (d) R

56. Let P be the median, Q be the mean and R be the mode of observations $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$. Let $S = \sum_{i=1}^n (2x_i - a)^2$. S takes minimum value, when a is equal to

- (a) 1
 (b) $\frac{Q}{2}$
 (c) $2Q$
 (d) R

57. क्या प्रायिकता है कि दिसंबर के महिने में 5 रविवार हों?

- (a) P
 (b) $\frac{1}{4}$
 (c) $\frac{3}{7}$
 (d) $\frac{2}{7}$

60. पहली 50 छन्द्रण संख्याओं में से एक छन्द्रण संख्या न तुरी जाती है। क्या प्राप्तिका है कि $n + 50 < 50$ हो ?

63. $m < 0$ सहित m के किस मान के लिए रेखाओं $y = x$, $y = mx$ और $x = 2$ द्वारा परिच्छेद क्षेत्रफल 3 के बाराबर है ?

- (a) $\frac{23}{25}$
- (b) -1
- (c) $-\frac{3}{2}$
- (d) -2

64. $\operatorname{cosec}(x^\circ)$ का अवकलज क्या है ?

- (a) $-\operatorname{cosec}(x^\circ) \cot(x^\circ)$
- (b) $-\frac{\pi}{180} \operatorname{cosec}(x^\circ) \cot(x^\circ)$
- (c) $\frac{\pi}{180} \operatorname{cosec}(x^\circ) \cot(x^\circ)$
- (d) $\frac{49}{50}$

61. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. $f(x) = \ln x$, $(0, \infty)$ में वर्धमान है

- (a) $-\frac{\pi}{180} \operatorname{cosec}(x^\circ) \cot(x^\circ)$

2. $g(x) = e^x + e^{\frac{1}{x}}$, $(0, \infty)$ में ह्रस्मान है

- (c) $\frac{\pi}{180} \operatorname{cosec}(x^\circ) \cot(x^\circ)$

उपर्युक्त कथनों में कौन सा / से सही है / हैं ?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

65. अवकल समीकरण $\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - x \frac{dy}{dx} = 0$ का

हल है

$\frac{dy}{dx}$

65. A solution of the differential equation

$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - x \frac{dy}{dx} = 0$ is

62. $\sin^2 x$ का $\cos^2 x$ के संदर्भ में अवकलज क्या है ?

- (a) -1
- (b) 1
- (c) $\sin 2x$
- (d) $\cos 2x$

60. A natural number n is chosen from the first 50 natural numbers. What is the probability that $n + \frac{50}{n} < 50$?

63. For what value of m with $m < 0$, is the area bounded by the lines $y = x$, $y = mx$ and $x = 2$ equal to 3 ?

- (a) $-\frac{1}{2}$
- (b) -1
- (c) $-\frac{3}{2}$
- (d) -2

- (a) $-\frac{1}{2}$
- (b) -1
- (c) $-\frac{3}{2}$
- (d) -2

64. What is the derivative of $\operatorname{cosec}(x^\circ)$?

- (a) $-\operatorname{cosec}(x^\circ) \cot(x^\circ)$
- (b) $-\frac{\pi}{180} \operatorname{cosec}(x^\circ) \cot(x^\circ)$
- (c) $\frac{\pi}{180} \operatorname{cosec}(x^\circ) \cot(x^\circ)$
- (d) $-\frac{\pi}{180} \operatorname{cosec}(x^\circ) \cot(x^\circ)$

61. Consider the following statements :

1. $f(x) = \ln x$ is increasing in $(0, \infty)$

- (a) $-\frac{\pi}{180} \operatorname{cosec}(x^\circ) \cot(x^\circ)$

2. $g(x) = e^x + e^{\frac{1}{x}}$ is decreasing in $(0, \infty)$

- (b) $-\frac{\pi}{180} \operatorname{cosec}(x^\circ) \cot(x^\circ)$

Which of the statements given above is/are correct ?

- (a) 1 only

- (b) 2 only

- (c) Both 1 and 2

- (d) Neither 1 nor 2

- (a) $y = 2x$
- (b) $y = 2x + 4$
- (c) $y = x^2 - 1$
- (d) $y = \frac{(x^2 - 2)}{2}$

66. यदि $f(x) = x^2 + 2$ और $g(x) = 2x - 3$ है, तो $(fg)(1)$ किसके बराबर है?

- (a) 3
(b) 1
(c) -2
(d) -3

67. फलन $f(x) = x + |x|$ का पराम (range) क्या है? जहां फलन का प्रांत (Domain) वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है?

- (a) $(0, \infty)$
(b) $[0, \infty)$
(c) $(-\infty, \infty)$
(d) $[1, \infty)$

68. यदि $f(x) = x(4x^2 - 3)$ है, तो $f(\sin\theta)$ किसके बराबर है?

- (a) $-\sin 3\theta$
(b) $-\cos 3\theta$
(c) $\sin 3\theta$
(d) $-\sin 4\theta$

69. $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{5-x}{|x-5|}$ किसके बराबर है?

- (a) -1
(b) 0
(c) 1
(d) सीमा का अस्तित्व नहीं है

66. If $f(x) = x^2 + 2$ and $g(x) = 2x - 3$, then what is $(fg)(1)$ equal to?

- (a) 3
(b) 1
(c) -2
(d) -3

70. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^9 - 1}{x^3 - 1}$ किसके बराबर है?

- (a) -1
(b) -3
(c) 3
(d) 3

71. यदि $2 - i\sqrt{3}$, जहां $i = \sqrt{-1}$ है, समीकरण $x^2 + ax + b = 0$ का एक मूल है तो $(a+b)$ का मान क्या है?

- (a) -11
(b) -3
(c) 0
(d) 3

72. यदि $z = \frac{1+i\sqrt{3}}{1-i\sqrt{3}}$, जहां $i = \sqrt{-1}$ है, तो z का कोणाक क्या है?

- (a) $-\sin 3\theta$
(b) $-\cos 3\theta$
(c) $\sin 3\theta$
(d) $-\sin 4\theta$

68. If $f(x) = x(4x^2 - 3)$, then what is $f(\sin\theta)$ equal to?

- (a) $-\sin 3\theta$
(b) -3
(c) 0
(d) 3

72. यदि $z = \frac{1+i\sqrt{3}}{1-i\sqrt{3}}$, जहां $i = \sqrt{-1}$ है, तो z का कोणाक क्या है?

- (a) $-\sin 3\theta$
(b) $-\cos 3\theta$
(c) $\sin 3\theta$
(d) $-\sin 4\theta$

69. $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{5-x}{|x-5|}$ किसके बराबर है?

- (a) -1
(b) 0
(c) 1
(d) Limit does not exist

70. What is $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^9 - 1}{x^3 - 1}$ equal to?

- (a) -1
(b) -3
(c) 3
(d) 3

71. If $2 - i\sqrt{3}$ where $i = \sqrt{-1}$ is a root of the equation $x^2 + ax + b = 0$, then what is the value of $(a+b)$?

- (a) -11
(b) -3
(c) 0
(d) 3

72. If $z = \frac{1+i\sqrt{3}}{1-i\sqrt{3}}$ where $i = \sqrt{-1}$, then what is the argument of z ?

- (a) $-\sin 3\theta$
(b) $-\cos 3\theta$
(c) $\sin 3\theta$
(d) $-\sin 4\theta$

69. $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{5-x}{|x-5|}$ किसके बराबर है?

- (a) -1
(b) 0
(c) 1
(d) Limit does not exist

66. If $f(x) = x^2 + 2$ and $g(x) = 2x - 3$, then what is $(fg)(1)$ equal to?

- (a) 3
(b) 1
(c) -2
(d) -3

70. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^9 - 1}{x^3 - 1}$ किसके बराबर है?

- (a) -1
(b) -3
(c) 3
(d) 3

73. यदि a, b, c AP में हैं तो
- (a) 7
 (b) 0
 (c) 1
 (d) 2
74. यदि $\log_x a, a^x$ और $\log_b x, GP$ में हैं, तो
- (a) $\log_a(\log_b a)$
 (b) $\log_b(\log_a b)$
 (c) $\frac{\log_a(\log_b a)}{2}$
 (d) $\frac{\log_b(\log_a b)}{2}$
75. यदि $2^{\frac{1}{c}}, 2^{\frac{b}{ac}}, 2^{\frac{1}{a}}$ GP में हैं तो निम्नलिखित में कौन-सा एक सही है ?
- (a) a, b, c, AP में हैं
 (b) a, b, c, HP में हैं
 (c) ab, bc, ca, AP में हैं
 (d) ab, bc, ca, HP में हैं
76. एक AP का पहला और दूसरा पद क्रमशः $\frac{5}{2}$ और $\frac{23}{12}$ है। यदि n वां पद बहुत समात्पक पद है, तो n का मान क्या है ?
- (a) 5
 (b) 6

77. k के कितने पूर्णक मानों (integral values) के लिए समीकरण $x^2 - 4x + k = 0$, जहाँ दोनों मूल अंतराल $(0, 5)$ में हैं ?
- (a) -1
 (b) 0
 (c) 1
 (d) 2
78. एक AP में, पहला पद x है और पहले n पदों का योगफल शून्य है। आगे m पहले का योगफल क्या है ?
- (a) $\frac{mx(m+n)}{n-1}$
 (b) $\frac{mx(m+n)}{1-n}$
 (c) $\frac{nx(m+n)}{m-1}$
 (d) $\frac{nx(m+n)}{1-m}$
79. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. $(25)! + 1, 26$ से भाज्य है
 2. $(6)! + 1, 7$ से भाज्य है
- जप्तुक कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं ?

74. If $\log_x a, a^x$ and $\log_b x$ are in GP, then what is x equal to?
- (a) $\log_a(\log_b a)$
 (b) $\log_b(\log_a b)$
 (c) $\frac{\log_a(\log_b a)}{2}$
 (d) $\frac{\log_b(\log_a b)}{2}$
75. If $2^{\frac{1}{c}}, 2^{\frac{b}{ac}}, 2^{\frac{1}{a}}$ are in GP, then which one of the following is correct?
- (a) a, b, c are in AP
 (b) a, b, c are in GP
 (c) a, b, c are in HP
 (d) ab, bc, ca are in AP
76. The first and the second terms of an AP are $\frac{5}{2}$ and $\frac{23}{12}$ respectively. If n^{th} term is the largest negative term, what is the value of n ?
77. For how many integral values of k , the equation $x^2 - 4x + k = 0$, where k is an integer has real roots and both of them lie in the interval $(0, 5)$?
- (a) 3
 (b) 4
 (c) 5
 (d) 6
78. In an AP, the first term is x and the sum of the first n terms is zero. What is the sum of next m terms?
- (a) $\frac{mx(m+n)}{n-1}$
 (b) $\frac{mx(m+n)}{1-n}$
 (c) $\frac{nx(m+n)}{m-1}$
 (d) $\frac{nx(m+n)}{1-m}$
79. Consider the following statements :
1. $(25)! + 1$ is divisible by 26
 2. $(6)! + 1$ is divisible by 7
- Which of the above statements is/are correct?
- (a) 1 only
 (b) 2 only
 (c) Both 1 and 2
 (d) Neither 1 nor 2

80. यदि z एक समीकरण संख्या है कि $\frac{z-1}{z+1}$ शुद्धतः अधिकारित है, तो $|z|$ किसके बराबर है?

- (a) $\frac{1}{2}$
(b) $\frac{2}{3}$
(c) 1
(d) 2

- अग्र आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :
- (c) $7x^2 + 8x + 2 = 0$
(d) $7x^2 - 8x + 2 = 0$

80. If z is a complex number such that $\frac{z-1}{z+1}$ is purely imaginary, then what is $|z|$ equal to ?

- (a) $\frac{1}{2}$
(b) $\frac{2}{3}$
(c) 1
(d) 2

- Consider the following for the next two (02) items that follow :
- (c) $7x^2 + 8x + 2 = 0$
(d) $7x^2 - 8x + 2 = 0$

- Given that $m(\theta) = \cot^2\theta + n^2\tan^2\theta + 2n$ where n is a fixed positive real number.

83. What is the least value of $m(\theta)$ Consider the following for the next two (02) items that follow :
- (a) n
(b) $2n$
(c) $3n$
(d) $4n$

84. Under what condition does m attain the least value ?

$$\Delta(a, b, c, \alpha) = \begin{vmatrix} a & b & a\alpha+b \\ b & c & ba+c \\ a\alpha+b & ba+c & 0 \end{vmatrix}$$

- (a) $n = \tan^2\theta$
(b) $n = \cot^2\theta$
(c) $n = \sin^2\theta$
(d) $n = \cos^2\theta$

81. यदि $\Delta(a, b, c, \alpha)=0$ तो प्रत्येक $\alpha > 0$ के लिए निम्नलिखित में कौन-सा सही है ?

- (a) a, b, c AP में है
(b) a, b, c GP में है
(c) $a, 2b, c$ AP में है
(d) $a, 2b, c$ GP में है

अग्र आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

रेखाओं $x=0, y=0, x+y=1$ और $6x+y=3$ से एक चतुर्भुज बनाया गया है।

- (a) a, b, c are in AP
(b) a, b, c are in GP
(c) $a, 2b, c$ are in AP
(d) $a, 2b, c$ are in GP

81. If $\Delta(a, b, c, \alpha)=0$ for every $\alpha > 0$, then which one of the following is correct?

- (a) $n = \tan^2\theta$
(b) $n = \cot^2\theta$
(c) $n = \sin^2\theta$
(d) $n = \cos^2\theta$

84. Consider the following for the next two (02) items that follow :

- A quadrilateral is formed by the lines $x=0, y=0, x+y=1$ and $6x+y=3$.

82. यदि $\Delta(7, 4, 2, \alpha)=0$ तो α निम्नलिखित में कौन-से एक समीकरण का मूल (root) है ?

- (a) $7x^2 + 4x + 2 = 0$
(b) $7x^2 - 4x + 2 = 0$

85. निर्देश-मूल-बिंदु (origin) से जुड़ते वाले विकर्ण का समीकरण क्या है ?

- (a) $3x + y = 0$
(b) $2x + 3y = 0$
(c) $3x - 2y = 0$
(d) $3x + 2y = 0$

82. If $\Delta(7, 4, 2, \alpha)=0$, then α is a root of which one of the following equations ?

- (a) $7x^2 + 4x + 2 = 0$
(b) $7x^2 - 4x + 2 = 0$
(c) $3x + 2y = 0$
(d) $3x - 2y = 0$

85. What is the equation of diagonal through origin ?

- (a) $3x + y = 0$
(b) $2x + 3y = 0$
(c) $3x - 2y = 0$
(d) $3x + 2y = 0$

- अग्र आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :
- (c) $7x^2 + 8x + 2 = 0$
(d) $7x^2 - 8x + 2 = 0$

83. $m(\theta)$ का न्यूनतम मान क्या है ?

- (a) n
(b) $2n$
(c) $3n$
(d) $4n$

84. किस प्रतिवर्ष के अंतर्गत m का मान न्यूनतम होगा ?

- (a) $n = \tan^2\theta$
(b) $n = \cot^2\theta$
(c) $n = \sin^2\theta$
(d) $n = \cos^2\theta$

85. निर्देश-मूल-बिंदु (origin) से जुड़ते वाले विकर्ण का समीकरण क्या है ?

- (a) $3x + y = 0$
(b) $2x + 3y = 0$
(c) $3x - 2y = 0$
(d) $3x + 2y = 0$

86. Consider the following for the next two (02) items that follow :

- (c) $7x^2 + 8x + 2 = 0$
(d) $7x^2 - 8x + 2 = 0$

87. What is the equation of diagonal through origin ?

- (a) $3x + y = 0$
(b) $2x + 3y = 0$
(c) $3x - 2y = 0$
(d) $3x + 2y = 0$

88. If $\Delta(7, 4, 2, \alpha)=0$, then α is a root of which one of the following equations ?

- (a) $7x^2 + 4x + 2 = 0$
(b) $7x^2 - 4x + 2 = 0$
(c) $3x + 2y = 0$
(d) $3x - 2y = 0$

89. A quadrilateral is formed by the lines $x=0, y=0, x+y=1$ and $6x+y=3$.

90. If z is a complex number such that $\frac{z-1}{z+1}$ is purely imaginary, then what is $|z|$ equal to ?

- (a) $\frac{1}{2}$
(b) $\frac{2}{3}$
(c) 1
(d) 2

91. Consider the following for the next two (02) items that follow :

- (c) $7x^2 + 8x + 2 = 0$
(d) $7x^2 - 8x + 2 = 0$

92. If $\Delta(7, 4, 2, \alpha)=0$, then α is a root of which one of the following equations ?

- (a) $7x^2 + 4x + 2 = 0$
(b) $7x^2 - 4x + 2 = 0$
(c) $3x + 2y = 0$
(d) $3x - 2y = 0$

93. A quadrilateral is formed by the lines $x=0, y=0, x+y=1$ and $6x+y=3$.

94. If $\Delta(7, 4, 2, \alpha)=0$, then α is a root of which one of the following equations ?

- (a) $7x^2 + 4x + 2 = 0$
(b) $7x^2 - 4x + 2 = 0$
(c) $3x + 2y = 0$
(d) $3x - 2y = 0$

95. Consider the following for the next two (02) items that follow :

- (c) $7x^2 + 8x + 2 = 0$
(d) $7x^2 - 8x + 2 = 0$

96. If $\Delta(7, 4, 2, \alpha)=0$, then α is a root of which one of the following equations ?

- (a) $7x^2 + 4x + 2 = 0$
(b) $7x^2 - 4x + 2 = 0$
(c) $3x + 2y = 0$
(d) $3x - 2y = 0$

97. A quadrilateral is formed by the lines $x=0, y=0, x+y=1$ and $6x+y=3$.

98. If $\Delta(7, 4, 2, \alpha)=0$, then α is a root of which one of the following equations ?

- (a) $7x^2 + 4x + 2 = 0$
(b) $7x^2 - 4x + 2 = 0$
(c) $3x + 2y = 0$
(d) $3x - 2y = 0$

99. Consider the following for the next two (02) items that follow :

- (c) $7x^2 + 8x + 2 = 0$
(d) $7x^2 - 8x + 2 = 0$

100. If $\Delta(7, 4, 2, \alpha)=0$, then α is a root of which one of the following equations ?

- (a) $7x^2 + 4x + 2 = 0$
(b) $7x^2 - 4x + 2 = 0$
(c) $3x + 2y = 0$
(d) $3x - 2y = 0$

101. A quadrilateral is formed by the lines $x=0, y=0, x+y=1$ and $6x+y=3$.

102. If $\Delta(7, 4, 2, \alpha)=0$, then α is a root of which one of the following equations ?

- (a) $7x^2 + 4x + 2 = 0$
(b) $7x^2 - 4x + 2 = 0$
(c) $3x + 2y = 0$
(d) $3x - 2y = 0$

103. Consider the following for the next two (02) items that follow :

- (c) $7x^2 + 8x + 2 = 0$
(d) $7x^2 - 8x + 2 = 0$

104. If $\Delta(7, 4, 2, \alpha)=0$, then α is a root of which one of the following equations ?

- (a) $7x^2 + 4x + 2 = 0$
(b) $7x^2 - 4x + 2 = 0$
(c) $3x + 2y = 0$
(d) $3x - 2y = 0$

105. A quadrilateral is formed by the lines $x=0, y=0, x+y=1$ and $6x+y=3$.

106. If $\Delta(7, 4, 2, \alpha)=0$, then α is a root of which one of the following equations ?

- (a) $7x^2 + 4x + 2 = 0$
(b) $7x^2 - 4x + 2 = 0$
(c) $3x + 2y = 0$
(d) $3x - 2y = 0$

107. Consider the following for the next two (02) items that follow :

- (c) $7x^2 + 8x + 2 = 0$
(d) $7x^2 - 8x + 2 = 0$

108. If $\Delta(7, 4, 2, \alpha)=0$, then α is a root of which one of the following equations ?

- (a) $7x^2 + 4x + 2 = 0$
(b) $7x^2 - 4x + 2 = 0$
(c) $3x + 2y = 0$
(d) $3x - 2y = 0$

109. A quadrilateral is formed by the lines $x=0, y=0, x+y=1$ and $6x+y=3$.

110. If $\Delta(7, 4, 2, \alpha)=0$, then α is a root of which one of the following equations ?

- (a) $7x^2 + 4x + 2 = 0$
(b) $7x^2 - 4x + 2 = 0$
(c) $3x + 2y = 0$
(d) $3x - 2y = 0$

111. Consider the following for the next two (02) items that follow :

- (c) $7x^2 + 8x + 2 = 0$
(d) $7x^2 - 8x + 2 = 0$

112. If $\Delta(7, 4, 2, \alpha)=0$, then α is a root of which one of the following equations ?

- (a) $7x^2 + 4x + 2 = 0$
(b) $7x^2 - 4x + 2 = 0$
(c) $3x + 2y = 0$
(d) $3x - 2y = 0$

113. A quadrilateral is formed by the lines $x=0, y=0, x+y=1$ and $6x+y=3$.

114. If $\Delta(7, 4, 2, \alpha)=0$, then α is a root of which one of the following equations ?

- (a) $7x^2 + 4x + 2 = 0$
(b) $7x^2 - 4x + 2 = 0$
(c) $3x + 2y = 0$
(d) $3x - 2y = 0$

115. Consider the following for the next two (02) items that follow :

- (c) $7x^2 + 8x + 2 = 0$
(d) $7x^2 - 8x + 2 = 0$

116. If $\Delta(7, 4, 2, \alpha)=0$, then α is a root of which one of the following equations ?

- (a) $7x^2 + 4x + 2 = 0$
(b) $7x^2 - 4x + 2 = 0$
(c) $3x + 2y = 0$
(d) $3x - 2y = 0$

117. A quadrilateral is formed by the lines $x=0, y=0, x+y=1$ and $6x+y=3$.

118. If $\Delta(7, 4, 2, \alpha)=0$, then α is a root of which one of the following equations ?

- (a) $7x^2 + 4x + 2 = 0$
(b) $7x^2 - 4x + 2 = 0$
(c) $3x + 2y = 0$
(d) $3x - 2y = 0$

119. Consider the following for the next two (02) items that follow :

- (c) $7x^2 + 8x + 2 = 0$
(d) $7x^2 - 8x + 2 = 0$

120. If $\Delta(7, 4, 2, \alpha)=0$, then α is a root of which one of the following equations ?

- (a) $7x^2 + 4x + 2 = 0$
(b) $7x^2 - 4x + 2 = 0$
(c) $3x + 2y = 0$
(d) $3x - 2y = 0$

121. A quadrilateral is formed by the lines $x=0, y=0, x+y=1$ and $6x+y=3$.

122. If $\Delta(7, 4, 2, \alpha)=0$, then α is a root of which one of the following equations ?

- (a) $7x^2 + 4x + 2 = 0$
(b) $7x^2 - 4x + 2 = 0$
(c) $3x + 2y = 0$
(d) $3x - 2y = 0$

123. Consider the following for the next two (02) items that follow :

- (c) $7x^2 + 8x + 2 = 0$
(d) $7x^2 - 8x + 2 = 0$

124. If $\Delta(7, 4, 2, \alpha)=0$, then α is a root of which one of the following equations ?

- (a) $7x^2 + 4x + 2 = 0$
(b) $7x^2 - 4x + 2 = 0$
(c) $3x + 2y = 0$
(d) $3x - 2y = 0$

125. A quadrilateral is formed by the lines $x=0, y=0, x+y=1$ and $6x+y=3$.

126. If $\Delta(7, 4, 2, \alpha)=0$, then α is a root of which one of the following equations ?

- (a) $7x^2 + 4x + 2 = 0$
(b) $7x^2 - 4x + 2 = 0$
(c) $3x + 2y = 0$
(d) $3x - 2y = 0$

127. Consider the following for the next two (02) items that follow :

- (c) $7x^2 + 8x + 2 = 0$
(d) $7x^2 - 8x + 2 = 0$

128. If $\Delta(7, 4, 2, \alpha)=0$, then α is a root of which one of the following equations ?

- (a) $7x^2 + 4x + 2 = 0$
(b) $7x^2 - 4x + 2 = 0$
(c) $3x + 2y = 0$
(d) $3x - 2y = 0$

129. A quadrilateral is formed by the lines $x=0, y=0, x+y=1$ and $6x+y=3$.

130. If $\Delta(7, 4, 2, \alpha)=0$, then α is a root of which one of the following equations ?

- (a) $7x^2 + 4x + 2 = 0$
(b) $7x^2 - 4x + 2 = 0$
(c) $3x + 2y = 0$
(d) $3x - 2y = 0$

131. Consider the following for the next two (02) items that follow :

- (c) $7x^2 + 8x + 2 = 0$
(d) $7x^2 - 8x + 2 = 0$

132. If $\Delta(7, 4, 2, \alpha)=0$, then α is a root of which one of the following equations ?

- (a) $7x^2 + 4x + 2 = 0$
(b) $7x^2 - 4x + 2 = 0$
(c) $3x + 2y = 0$
(d) $3x - 2y = 0$

133. A quadrilateral is formed by the lines $x=0, y=0, x+y=1$ and $6x+y=3$.

134. If $\Delta(7, 4, 2, \alpha)=0$, then α is a root of which one of the following equations ?

- (a) $7x^2 + 4x + 2 = 0$
(b) $7x^2 - 4x + 2 = 0$
(c) $3x + 2y = 0$
(d) $3x - 2y = 0$

135. Consider the following for the next two (02) items that follow :

- (c) $7x^2 + 8x + 2 = 0$
(d) $7x^2 - 8x + 2 = 0$

136. If $\Delta(7, 4, 2, \alpha)=0$, then α is a root of which one of the following equations ?

- (a) $7x^2 + 4x + 2 = 0$
(b) $7x^2 - 4x + 2 = 0$
(c) $3x + 2y = 0$
(d) $3x - 2y = 0$

137. A quadrilateral is formed by the lines $x=0, y=0, x+y=1$ and $6x+y=3$.

138. If $\Delta(7, 4, 2, \alpha)=0$, then α is a root of which one of the following equations ?

- (a) $7x^2 + 4x + 2 = 0$
(b) $7x^2 - 4x + 2 = 0$
(c) $3x + 2y = 0$
(d) $3x - 2y = 0$

139. Consider the following for the next two (02) items that follow :

- (c) $7x^2 + 8x + 2 = 0$
(d) $7x^2 - 8x + 2 = 0$

140. If $\Delta(7, 4, 2, \alpha)=0$, then α is a root of which one of the following equations ?

- (a) $7x^2 + 4x + 2 = 0$
(b) $7x^2 - 4x + 2 = 0$
(c) $3x + 2y = 0$
(d) $3x - 2y = 0$

141. A quadrilateral is formed by the lines $x=0, y=0, x+y=1$ and $6x+y=3$.

91. पांच प्रेस्टों के माध्य और प्रस्तरा क्रमशः 14 और 13.2 हैं। पांच में से तीन प्रेस्टों 11, 16 और 20 हैं। अन्य दो प्रेस्टा क्या हैं?
- 8 और 15
 - 9 और 14
 - 10 और 13
 - 11 और 12
92. मान लीजिए A और B दो स्वतंत्र घटनाएं। इस प्रकार है कि
- $$P(\bar{A}) = 0.7, P(\bar{B}) = k, P(A \cup B) = 0.8$$
- $\frac{81}{256}$
 - $\frac{27}{64}$
 - $\frac{27}{256}$
 - $\frac{9}{256}$
 - $\frac{1}{7}$
93. एक अभिन्न रिक्मों को जिसमें चित (head) अने की प्रायिकता $\frac{1}{4}$ है, पांच बार उछला जाता है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि पहले सभी चार उछलों में पट (tail) आए और उसके बाद चित आए?
- $\frac{81}{512}$
 - $\frac{81}{1024}$
94. एक सिक्का इस प्रकार अभिन्न है कि उसमें चित (heads) और तेहिनी (tails) आने की संभावना से ठिगुनी है। सिक्के के चार स्वतंत्र उछलों में सटीक तीन चित आने की क्या प्रायिकता है?
95. मान लीजिए X और Y दो यादृच्छिक चर इस प्रकार है कि $X + Y = 100$ है। यदि प्राचल $n = 100$ और $p = \frac{4}{5}$ सहित X द्विपद बंटन का अनुसरण करता है, तो Y का प्रस्तरा क्या है?
- 1
 - $\frac{1}{2}$
 - 16
 - $\frac{1}{16}$
91. The mean and variance of five observations are 14 and 13.2 respectively. Three of the five observations are 11, 16 and 20. What are the other two observations?
- 8 and 15
 - 9 and 14
 - 10 and 13
 - 11 and 12
92. Let A and B be two independent events such that $P(\bar{A}) = 0.7, P(\bar{B}) = k, P(A \cup B) = 0.8$. What is the value of k?
- $\frac{81}{256}$
 - $\frac{27}{64}$
 - $\frac{27}{256}$
 - $\frac{9}{256}$
 - $\frac{1}{7}$
93. A biased coin with the probability of getting head equal to $\frac{1}{4}$ is tossed five times. What is the probability of getting tail in all the first four tosses followed by head?
- 1
 - $\frac{1}{2}$
 - 16
 - $\frac{1}{16}$
94. A coin is biased so that heads comes up thrice as likely as tails. In four independent tosses of the coin, what is probability of getting exactly three heads?
- $\frac{81}{256}$
 - $\frac{27}{64}$
 - $\frac{27}{256}$
 - $\frac{9}{256}$
95. Let X and Y be two random variables such that $X + Y = 100$. If X follows Binomial distribution with parameters $n = 100$ and $p = \frac{4}{5}$, what is the variance of Y?
- 1
 - $\frac{1}{2}$
 - 16
 - $\frac{1}{16}$

96. यदि $x + 4y + 1 = 0$ और $4x + 9y + 7 = 0$
दो समाधान रेखाएँ हैं तो जब $y = -3$ हो तो
 x का मान क्या है ?

(a) -13

(b) -5

(c) 5

(d) 7

97. एक चूंत चार्ट (Pie Chart) के चार नियम

चंडों (सेक्टरों) के केंद्रीय कोण p, q, r और s
(दिया गया है) संबंध $9p = 3q = 2r = 6s$ को

सुनिश्चित करते हैं। $4p - q$ का मान क्या है ?

(a) 12

(b) 24

(c) 30

(d) 36

98. $4, 1, 4, 3, 6, 2, 1, 3, 4, 5, 1, 6$ प्रेषण

पासों को एक साथ फेंके जाने का परिणाम है।
यदि m और M क्रमशः सबसे छोटे 8 प्रेषणों
और सबसे बड़े 4 प्रेषणों के मात्र हैं, तो

$(2m + M)$ किसके बराबर है ?

(a) 10

(b) 12

(c) 17

(d) 21

99. एक द्विवर डेटा समूच्चय में केवल दो बिंदु
 $(-1, 1)$ और $(3, 2)$ हैं। तो y की x पर
समाधान रेखा क्या होगी ?

(a) $x - 4y + 5 = 0$

(b) $3x + 2y - 1 = 0$

- (c) $x + 4y + 1 = 0$

(d) $5x - 4y + 1 = 0$

100. एक पासे को 10 बार उछाला जाता है और

निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं :

1, 2, 1, 1, 2, 1, 4, 6, 5, 4

(a) 6

(b) 4

(c) 2

(d) 1

- अब आपने बाले तीन (03) प्रश्नों के लिए

निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए $I_1 = \int_0^{\pi} \frac{x}{1+\cos^2 x} dx$ और

$$I_2 = \int_0^{\pi} \frac{1}{1+\sin^2 x} dx$$

(a) 10

(b) 12

(c) 17

(d) 21

101. $\frac{I_1 + I_2}{I_1 - I_2}$ का मान क्या है ?

(a) 1

(b) π

(c) 17

(d) 21

99. A bivariate data set contains only two points $(-1, 1)$ and $(3, 2)$. What will be the line of regression of y on x ?

(a) $x - 4y + 5 = 0$

(b) $3x + 2y - 1 = 0$

96. If two lines of regression are $x + 4y + 1 = 0$ and $4x + 9y + 7 = 0$, then what is the value of x when $y = -3$?

(a) -13

(b) -5

(c) 5

(d) 7

100. A die is thrown 10 times and obtained the following outputs :

1, 2, 1, 1, 2, 1, 4, 6, 5, 4
What will be the mode of data so obtained ?

(a) 6

(b) 4

(c) 2

(d) 1

Consider the following for the next three (03) items that follow :

98. The observations $4, 1, 4, 3, 6, 2, 1, 3, 4, 5, 1, 6$ are outputs of 12 dices thrown simultaneously. If m and M are means of lowest 8 observations and highest 4 observations respectively, then what is $(2m + M)$ equal to ?

$$\text{Let } I_1 = \int_0^{\pi} \frac{x}{1+\cos^2 x} dx \text{ and}$$

$$I_2 = \int_0^{\pi} \frac{1}{1+\sin^2 x} dx$$

$$(a) 10$$

$$(b) 12$$

$$(c) 17$$

$$(d) 21$$

101. What is the value of $\frac{I_1 + I_2}{I_1 - I_2}$?

(a) 1

(b) π

(c) 17

(d) 21

99. A bivariate data set contains only two points $(-1, 1)$ and $(3, 2)$. What will be the line of regression of y on x ?

- (a) $x + 4y + 1 = 0$

(b) $4x + 9y + 7 = 0$

(c) $5x - 4y + 1 = 0$

(d) $5x - 4y + 1 = 0$

102. $8I_1^2$ का मान क्या है ?

- (a) π
- (b) π^2
- (c) π^3
- (d) π^4

103. I_2 का मान क्या है ?

- (a) $\frac{\pi}{\sqrt{2}}$
- (b) $\frac{3\pi}{2\sqrt{2}}$
- (c) $\frac{\pi}{4\sqrt{2}}$
- (d) $\frac{(a+b)}{2}$

आगे आगे वाले तीन (03) प्रश्नों के लिए
निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

- (a) $\frac{\pi}{\sqrt{2}}$

मान लीजिए $f(x) = |\ln x|, x \neq 1$ है

- (b) -2
 - (c) 1
 - (d) 2
106. $x=0.5$ पर $f(x)$ का अवकलज क्या है ?
- (a) -2
 - (b) -1
 - (c) 1
 - (d) 2

Consider the following for the next two
(02) items that follow :

- (c) 1
- (d) 2

मान लीजिए $I = \int_a^b \frac{|x|}{x} dx, a < b$

107. $x=2$ पर $f(x)$ का अवकलज क्या है ?

Let $I = \int_a^b \frac{|x|}{x} dx, a < b$

107. What is the derivative of $f(x)$ at $x = 2$?

- (a) $a+b$
- (b) $a-b$
- (c) $b-a$
- (d) $\frac{(a+b)}{2}$

102. What is the value of $8I_1^2$?

- (a) π

- (b) π^2

- (c) π^3

- (d) π^4

103. What is the value of I_2 ?

- (a) $\frac{\pi}{\sqrt{2}}$

Consider the following for the next three
(03) items that follow :

Let $f(x) = |\ln x|, x \neq 1$

106. What is the derivative of $f(x)$ at
 $x=0.5$?

- (a) -2
- (b) -1
- (c) 1
- (d) 2

- (c) 1
- (d) 2

104. I किसके बराबर है जब $a < 0 < b$ है ?

- (a) $\frac{1}{2}$

104. What is I equal to when $a < 0 < b$?

- (a) $-\frac{1}{2}$

104. What is I equal to when $a < 0 < b$?

- (a) $a+b$
- (b) $a-b$
- (c) $b-a$
- (d) $\frac{(a+b)}{2}$

105. What is I equal to when $a < b < 0$?

- (a) $a+b$

- (b) $a-b$

- (c) $b-a$

- (d) $\frac{(a+b)}{2}$

108. $f \circ f(x)$ का अवकलन क्या है जहाँ $1 < x < 2$?

$\frac{d}{dx}$?

(a) $\frac{1}{\ln x}$

(b) $\frac{1}{x \ln x}$

(c) $-\frac{1}{\ln x}$

(d) $-\frac{1}{x \ln x}$

आगे आगे वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

- (a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) 4

$$\text{मान लीजिए } f(x) = Pe^x + Qe^{2x} + Re^{3x}, \text{ जहाँ } P, Q, R \text{ वास्तविक संख्याएँ हैं। इसके अतिरिक्त } f(0) = 6, f'(ln 3) = 282 \text{ और } \int_0^{\ln 2} f(x) dx = 11$$

मान लीजिए $f(x) = Pe^x + Qe^{2x} + Re^{3x}$, जहाँ P, Q, R वास्तविक संख्याएँ हैं। इसके अतिरिक्त $f'(ln 3) = 282$ और $\int_0^{\ln 2} f(x) dx = 11$

(b) $\frac{1}{x \ln x}$

111. Q का मान क्या है ?

- (a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) 4

(c) $-\frac{1}{\ln x}$

- (a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) 4

108. What is the derivative of $f \circ f(x)$, where $1 < x < 2$?

Consider the following for the next three (03) items that follow :

Let $f(x) = Pe^x + Qe^{2x} + Re^{3x}$, where P, Q, R are real numbers. Further $f(0) = 6$, $f'(ln 3) = 282$ and $\int_0^{\ln 2} f(x) dx = 11$

112. What is the value of R ?

- (a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) 4

$$\text{Let } f(x) = \begin{cases} x+6, & x \leq 1 \\ px+q, & 1 < x < 2 \\ 5x, & x \geq 2 \end{cases}$$

and $f(x)$ is continuous

109. What is the value of p ?

- (a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) 4

112. What is the value of R ?

- (a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) 4

110. q का मान क्या है ?

- (a) 2
(b) 3
(c) 4
(d) 5

113. $f'(0)$ किसके बराबर है ?

- (a) 18
(b) 16
(c) 15
(d) 14

110. What is the value of q ?

- (a) 2
(b) 3
(c) 4
(d) 5

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिएः
 मान नीमिट् E ऐसा अवकल समीकरण है जो बहु-तुल $y^2 = 2cx + 2c\sqrt{c}$ को निश्चित करता है, जहां c एक धनात्मक प्राचल है।

114. इस अवकल समीकरण की ओटि (order) क्या है ?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4

115. इस अवकल समीकरण की घात (degree) क्या है ?

- (a) 2
- (b) 3
- (c) 4
- (d) घात का अद्वितीय नहीं है

आगे आने वाले तीन (03) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिएः

$$\text{मान नीमिट् } f(x) = \sin[\pi^2 x + \cos(-\pi^2)x] \text{ जहां } [.] \text{ एक महत्वम् पूर्णांक फलन है।}$$

116. $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ किसके बराबर है ?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 2

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिएः

मान नीमिट् $f(x) = \sin[\pi^2 x + \cos(-\pi^2)x]$ जहां

[.] एक महत्वम् पूर्णांक फलन है।

117. $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ किसके बराबर है ?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 3
- (d) 4

118. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}$ किसके बराबर है ?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 2

115. What is the degree of the differential equation ?

Consider the following for the next two (02) items that follow :

116. What is $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ equal to ?

Let $f(x) = \sin[\pi^2 x + \cos(-\pi^2)x]$ where [.] is a greatest integer function

117. What is $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}$ equal to ?

Consider the following for the next two (02) items that follow :

118. What is $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}$ equal to ?

Let $f(x) = \sin[\pi^2 x + \cos(-\pi^2)x]$ where [.] is a greatest integer function

$$\text{मान नीमिट् } f(x) = \begin{vmatrix} \cos x & x & 1 \\ 2 \sin x & x^2 & 2x \\ \tan x & x & 1 \end{vmatrix}$$

$$119. f\left(\frac{\pi}{4}\right) \text{ किसके बराबर है ?}$$

$$\text{Let } f(x) = \begin{vmatrix} \cos x & x & 1 \\ 2 \sin x & x^2 & 2x \\ \tan x & x & 1 \end{vmatrix}$$

$$120. f\left(\frac{\pi}{4}\right) \text{ किसके बराबर है ?}$$

$$\text{Let } f(x) = \begin{vmatrix} \cos x & x & 1 \\ 2 \sin x & x^2 & 2x \\ \tan x & x & 1 \end{vmatrix}$$

$$120. \text{ What is } f\left(\frac{\pi}{4}\right) \text{ equal to ?}$$

116. What is $f(0)$ equal to ?

117. What is $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}$ equal to ?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 2

- (a) $-\frac{1}{\sqrt{2}}$
- (b) -1
- (c) 1
- (d) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

